

प्रेस नोट दिनांक-21.05.2021

(1). 30प्र0 शासन द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला कल्याण एवं बाल विकास के लिए चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में दिनांक 21.05.2021 को एण्टी रोमियो टीम थाना भरतकूप द्वारा भरतकूप मंदिर, बाजार एवं रेलवे स्टेशन में भ्रमण कर, एण्टी रोमियो टीम थाना मऊ द्वारा कस्बा मऊ में बस स्टैण्ड, बाजार, यमुना रोड में भ्रमण कर, एण्टी रोमियो टीम थाना राजापुर द्वारा कस्बा राजापुर में, एण्टी रोमियो टीम महिला थाना द्वारा चुंगी चौराहा, चकरेही चौराहा एवं कसहाई रोड में भ्रमण कर, एण्टी रोमियो टीम थाना मारकुंडी द्वारा ग्राम छेरिहाखुर्द में, एण्टी रोमियो टीम थाना बरगढ़ द्वारा कस्बा बरगढ़ में भ्रमण कर, एण्टी रोमियो टीम थाना पहाड़ी द्वारा कस्बा पहाड़ी में, एण्टी रोमियो टीम थाना मानिकपुर द्वारा कस्बा मानिकपुर में बाजार, बैंक, सुभाष नगर, गुरौला रोड, डॉटपुल के आस-पास भ्रमण कर महिलाओं/ बालिकाओं को मास्क लगाने हेतु जागरूक किया तथा बाहर निकलने वाले व्यक्तियों बाहर निकलने का कारण पूछा तथा शासन द्वारा लागू लॉकडाउन का पालन करने हेतु बताया गया। सभी से अपील की कोई भी अनावश्यक रूप से अपने घर से बाहर न निकलें/घूमें कोरोना वायरस से अपने व अपने परिवार को बचाये। महिला आरक्षियों द्वारा महिलाओं/बालिकाओं को वीमेन पावर लाइन 1090, महिला हेल्पलाइन 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, पुलिस आपातकालीन सेवा 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, स्वास्थ्य सेवा 102, एम्बुलेंस सेवा 108 एवं अपने-अपने थाना के सीयूजी नम्बर के बारे में विस्तृत जानकारी देकर जागरूक किया साथ ही मास्क लगाने एवं कोविड-19 के नियमों का पालन करने हेतु बताते हुये कोरोना वैक्सीन के प्रति जागरूक किया गया।

(2).

आपदा मे 112-यूपी की पहल

संक्रमण और कालाबाजारी के प्रति पीआरवी से कर रहे हैं जागरूक

चित्रकूट जिले मे 01 अप्रैल से अब तक 141 जरूरतमंदों को पहुंचायी सहायता

वर्तमान में उत्तर प्रदेश पुलिस एवं 112 यूपी द्वारा लगातार जनमानस को आपात सहायता प्रदान की जा रही है। वैश्विक महामारी कोविड-9 के बढ़ते प्रसार को रोकने एवं आवश्यक वस्तुओं जैसे आक्सीजन सिलेंडर, जीवन रक्षक दवाये इत्यादि की कालाबाजारी पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश पुलिस व 112 यूपी द्वारा कालाबाजारी व जमाखोरी करने वालों के खिलाफ अभियान चला कर जनमानस को जागरूक किया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में अपर पुलिस महानिदेशक-112 यूपी श्री अशोक कुमार सिंह द्वारा वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से दिये गये निर्देश के क्रम में जनपद चित्रकूट में 14 होर्डिंगए 880 पोस्टर छपवाकर विभिन्न स्थानों पर लगाकर प्रचार-प्रसार कराया जा रहा है। साथ ही 112 यूपी द्वारा उपलब्ध कराये गए ऑडियो जिंगल चित्रकूट जिले में संचालित 23 पीआरवी में लगे पीए सिस्टम के माध्यम से गाँव कस्बों और शहरी इलाकों में नागरिकों को कोरोना संक्रमण के प्रति लगातार जागरूक किया जा रहा है।

आपदा की इस घड़ी में 112 यूपी लगातार जरूरत मन्द लोगों तक आपात सहायता के साथ कानून-व्यवस्था संभालने का कार्य कर रही है। पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में 1 अप्रैल से अब तक 141 जरूरतमन्द लोगों तक 112 यूपी की पीआरवी ने सहायता पहुंचायी है। लॉक डाउन के दौरान पीआरवी कर्मियों द्वारा गंभीर मरीजों को दवाई आदि पहुँचाने का कार्य भी किया जा रहा है।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में श्री सुभाषचन्द्र चौरसिया प्रभारी निरीक्षक थाना मानिकपुर के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री अरविन्द कुमार पाण्डेय तथा उनकी टीम द्वारा कल्याण केन्द्र मानिकपुर से अभियुक्त अशोक कुमार पुत्र छेदीलाल निवासी इन्द्रानगर कस्बा व थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट को 15 अदद क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना मानिकपुर में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

बरामदगी:-

15 अदद क्वार्टर देशी शराब

बरामदगी/गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1. उ0नि0 श्री अरविन्द कुमार पाण्डेय थाना मानिकपुर
2. आरक्षी रामजी साहू
3. आरक्षी रविन्द्र प्रताप

(4). आज दिनांक 21.05.2021 को प्रातः 11.00 बजे श्री उदयवीर सिंह चंदेल क्षेत्राधिकारी कार्यालय द्वारा वर्ष-1992 से प्रत्येक वर्ष 21 मई को मनाये जाने वाले आतंकवाद विरोधी दिवस की शपथ पुलिस कार्यालय में नियुक्त अधि0/कर्म0 को दिलायी गयी।

शपथ-

“हम भारतवासी अपने देश की अहिंसा एवं सहनशीलता की परम्परा में दृढ़ विश्वास रखते हैं तथा निष्ठापूर्वक शपथ लेते हैं कि हम सभी प्रकार के आतंकवाद और हिंसा का डटकर विरोध करेंगे। हम मानव जाति के सभी वर्गों के बीच शान्ति, सामाजिक सद्भाव तथा सूझ-बूझ कायम करने और मानव जीवन मूल्यों को खतरा पहुंचाने वाली और विघटनकारी शक्तियों से लड़ने की भी शपथ लेते हैं।”

आतंकवाद विरोधी दिवस शपथ कार्यक्रम में चुनाव सेल/डीसीआरबी प्रभारी श्री अरुण कुमार पाठक, मीडिया सेल प्रभारी निरीक्षक श्री कृष्ण कुमार मिश्रा, एलआईयू प्रभारी राजेश कुमार यादव, उ0नि0 श्री विपिन कुमार मिश्रा मीडिया सेल. उ0नि0 श्री सुखशेखर राही प्रभारी जनसूचना सेल, वाचक पुलिस अधीक्षक श्री शिवबदन सिंह एवं अन्य अधि0/कर्मचारी उपस्थित रहे।

इसी क्रम में जनपद के क्षेत्राधिकारी कार्यालय में सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी द्वारा एवं थाना/चौकी पर प्रभारी निरीक्षक/चौकी प्रभारी द्वारा अपने अधीनस्थ नियुक्त अधि0/कर्मचारीगणों को शपथ दिलायी गयी।

